



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 349) पटना, बुधवार, 2 अप्रील 2014

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2012

सं0 8/व3-34/2012-707—“बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011” के नियम-2 (झ) के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य के सन्दर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्न प्राधिकार को “स्थानीय प्राधिकार” घोषित किया जाता है:-

1. **प्राथमिक विद्यालयों के लिए :-** ग्राम पंचायत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्राम पंचायत की “शिक्षा समिति”। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की “सशक्त स्थायी समिति”।
2. **मध्य विद्यालयों के लिए :-** प्रखण्ड के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों के लिए पंचायत समिति की “शिक्षा समिति”। नगर क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की “सशक्त स्थायी समिति”।

स्थानीय प्राधिकार के निम्न दायित्व एवं कार्य होंगे :-

- (i) प्रत्येक टोला/गाँव के लिए पड़ोस का विद्यालय तय करना।
- (ii) 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन/यह सुनिश्चित करना कि एक ही बच्चा का दो विद्यालयों में नामांकन नहीं हो।
- (iii) बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना तथा उपस्थिति सुनिश्चित कराना।

- (iv) बच्चों के बीच भेदभाव नहीं हो, इसे देखना एवं दूर करने का उपाय करना।
- (v) बच्चों का अभिलेख संधारित करना।
- (vi) विद्यालयों का समय पर संचालन।

उपर्युक्त स्थानीय प्राधिकार के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को लागू करने से संबंधित कोई भी शिकायत सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार को दी जा सकती है। स्थानीय प्राधिकार द्वारा शिकायत प्राप्ति के तीन माह के अन्दर मामले का निष्पादन किया जायेगा। मामले के निष्पादन हेतु शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा।

स्थानीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्ता बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के पास अपील दायर कर सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमरजीत सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 349-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>